

निदेशालय शोध

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद

निविदा की सामान्य शर्तें :-

१. निविदादाता को वेब साइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के शुल्क के रूप में रुपये 1000=00 (रु.एक हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, पिठला/पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना शुल्क के किसी भी निविदा प्रपत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
२. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ रुपये 30,000=00 (रु.तीस हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट धरोहर के रूप में संलग्नकर जमा करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, पिठला/पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज में देय वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पक्ष में होना चाहिये। अनुमोदित निविदादाताओं को छोड़कर शेष अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट मूलरूप में निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न करने की दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर धनराशि पूर्व वर्षों में जमा है उन्हें अतिरिक्त धनराशि के अलावा अलग से धरोहर धनराशि जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है, परन्तु जमा धरोहर राशि का पूर्ण विवरण निविदा में साक्ष्य सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।
३. निविदाकर्ता द्वारा अनुमोदित दर पर सम्बन्धित कार्य समय से नहीं कराया जाता है तो अन्य निविदादाता से कार्य कराने की दशा में कार्य के समस्त मूल का १०% धनराशि अनुमोदित दर वाले निविदाकर्ता की जमा धरोहर धनराशि से कटौती करते हुए विश्वविद्यालय के खाते में जमा करली जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित निविदाकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
४. निविदादाता द्वारा दिया गया दर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ आने वाले समस्त प्रक्षेत्रों/शोध केन्द्रों/के०बी०के०/बीज विधायन संयंत्र इत्यादि हेतु लागू होगा।
५. निविदादाता को अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "निविदा वास्ते कृषि कार्य" अंकित हो पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ व्यक्तिगतरूप से दिनांक 31-05-2016 को सायं ४.०० बजे तक कुमारगंज स्थित निदेशक शोध के कार्यालय में जमा करनी होगी। विलम्ब से प्रेषित अथवा डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
६. दिनांक 31-05-2016 तक प्राप्त निविदाओं को अनुमोदित समिति द्वारा दिनांक 02-06-2016 को पूर्वान्ह ११.३० बजे खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय इच्छुक निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
७. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ श्रमिक न्यायालय द्वारा आवंटित टिन/पंजीयन संख्या एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण-पत्र के कोई भी निविदा विचारणीय न होगी।
८. निविदादाता को अपना दर कार्य विवरण में अंकित आवश्यकतानुसार प्रति एकड, प्रति कुन्तल, प्रति हजार एवं प्रतिदिन के दर से अंकित करना होगा। अन्य इकाईयों में दिया गया दर मान्य न होगा।
९. निविदा में अंकित कार्य विवरण के अनुसार ढुलाई हेतु ट्रैक्टर, मडाई हेतु आवश्यकतानुसार थ्रेसर, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल एवं अन्य संसाधन एवं उपकरण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार को मात्र कार्य सम्पादन हेतु श्रमिक की व्यवस्था करनी होगी।


17.5.16

